



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 613]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 8, 2001/अग्रहायण 17, 1923

No. 613]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 8, 2001/AGRAHAYANA 17, 1923

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2001

सा.का.मि. 886(अ).— केन्द्रीय सरकार, चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 4) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चीनी विकास निधि नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चीनी विकास निधि (दूसरा संशोधन) नियम, 2001 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. चीनी विकास निधि नियम, 1983 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 19 में उपनियम (13) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(13 क) ब्याज, भंडारकरण और बीमा के लिए सहायकी के रूप में प्राप्त निधियों को बनाए रखना और उसका उपयोग ;

(क) चीनी कारखाने का प्रत्येक अधिभोगी चीनी के बफर स्टॉक की मात्रा पर ब्याज, भंडारकरण और बीमा के लिए सहायकी के रूप में केन्द्रीय सरकार से अभिप्राप्त रकम, यदि कोई है, को पृथक् रखेगा और इस प्रकार पृथक् रखी गई रकम को इस उपनियम के खंड (ख) में उपबंधित प्रयोजन के लिए उसके बैंक के पास एक अलग खाते में जमा कराएगा जिसके साथ उपनियम (13) के खंड (क) के अधीन वह एक अलग खाता रखता है ।

(ख) अलग खाते में जमा की गई रकम का उपयोग उक्त अधिभोगी द्वारा चीनी कारखाने द्वारा क्रय किए गए गन्ने के लिए देय कीमत के संदाय से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा ;

परंतु यह कि जहां राज्य सरकार का प्राधिकारी/अधिकारी ऊपर खंड (क) में निर्दिष्ट बैंक को इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र प्ररूप 6 में देता है कि संबद्ध चीनी कारखाने के विरुद्ध पृथक् खाते में ब्याज, भंडारकरण और बीमा के लिए सहायकी की रकम के उधार की तारीख परादेय मूल्य के बकाया सहित गन्ने के मूल्यों का कोई देय बकाया नहीं है, वहां बैंक उक्त अधिभोगी को केन्द्रीय सरकार को सूचना देने के अधीन रहते हुए किसी अन्य प्रयोजन के लिए उक्त रकम का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी ।”

प्ररूप 5
(नियम 19 (16))

(मात्रा किंटलों में, और रकम रुपयों में उपदर्शित की जाएगी)

- अवधि _____ मात्रा _____
..... सेतक

- 5.क उस बीमा पालिसी की विशिष्टियां जिसके अधीन बफर स्टॉक की बीमा की गई है :-
- (1) बीमा कंपनी का नाम और पता
 - (2) बीमा पालिसी का संख्यांक
 - (3) बीमा की अवधि

- (4) उसके अंतर्गत आने वाले जोखिम
 (5) गोदाम संख्या जहां बफर स्टॉक भंडारित है

5ख बफर स्टॉक पर केन्द्रीय सरकार से अभिप्राप्त ब्याज, भंडारकरण और बीमा के लिए सहायकी

अवधि

- (क) प्राप्ति की तारीख सहित प्राप्त रकम _____
 (ख) लेखा संख्यांक सहित पृथक् बैंक खाता में से तक रखी गई (क) की रकम
 (ग) गन्ने के मूल्य के संदाय के लिए वस्तुतः उपयोग में लाई गई (ख) में से रकम
 (घ) दावे की तिमाही/दावे की अंतिम तारीख के समाप्त होने पर [(ख) घटा (ग)] अतिशेष
 (ङ) (घ) पर रकम के अनुपयोजन के कारण ।

6. नियम 19 के उपनियम (15) के अधीन निम्नलिखित के लिए विनिर्दिष्ट दर :
 (क) ब्याज (प्रतिशत प्रतिवर्ष)
 (ख) भंडारकरण और बीमा प्रभार (प्रतिशत प्रतिवर्ष)

7. नियम 19 के उपनियम (15) के अधीन उपबंधित चीनी का मूल्य

मास	प्रति क्विंटल रुपयों में टैरिफ मूल्य	विक्रय वसूली	
		(क) निपटाई गई मात्रा क्विंटलों में	(ख) विक्रय वसूली की रकम रुपयों में
(i)			
(ii)			
(iii)			
कुल			

प्रति क्विंटल रुपये में औसत टैरिफ मूल्य/ औसत भारित वसूली

8. (i) चीनी के वफर स्टॉक पर ब्याज

प्रभारों के मद्दे सहायकी का परिकलन :

(क)से तक की अवधि के लिए बैंक को वास्तव में संदत्त या संदेय ब्याज की रकम	अवधि अग्रिम की मूल रकम ----- से.....तक	ब्याज की दर ----- संदत्त/संदेय
(ख)	नियम 19 के उपनियम (15) के अधीन परिकलित रकम		

(ii) नियम 19 के उपनियम 15 के अधीन परिकलित
भंडारकरण और बीमा प्रभारों के मद्दे रकम ।

9. दावा की गई सहायकी की रकम

- (i) मद 8 (i) (क) या 8 (i) (ख) के अनुसार,
इनमें में से जो कम हो, ब्याज प्रभार ।
- (ii) मद 8 (ii) के अनुसार भंडारकरण और
बीमा प्रभार
- (iii) (i) और (ii) को कुल निकटतम रुपए तक
अंको और शब्दों में पूर्णांकित किया गया ।

10. कारखाने के स्थान के निकटतम उस स्थान का
नाम जहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए
मांग देय ड्राफ्ट के साथ व्यौहार करने वाली
भारतीय स्टेट बैंक की शाखा अवस्थित है ।

हस्ताक्षर :

अधिभोगी

नाम :

पदनाम :

स्थान :

तारीख :

चीनी उपक्रम का नाम और पता

घोषणा

- (1) मैं, इसके द्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक यह प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना सही है और इस आवेदन के प्रयोजन के लिए सुसंगत कोई जानकारी नहीं छिपाई गई है ।
- (2) मैं, इसके द्वारा अपने द्वारा प्राप्त सहायकी की ऐसी रकम जो अपेक्षित हो , केन्द्रीय सरकार को उस दशा में यदि ऊपर दी गई कोई जानकारी किसी भी समय गलत पाई जाए प्रतिदाय करने का वचनबद्ध करता हूँ
- (3) मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि नियम 19 की सभी अपेक्षाएं पूरी कर दी गई हैं और यह कि यदि तत्पश्चात् यह पाया जाता है कि उस नियम के किसी उपबंध के किसी नियम का अनुपालन नहीं किया गया है तब मैं केन्द्रीय सरकार को मेरे द्वारा प्राप्त सहायकी की ऐसी रकम जिसकी केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षा की जाए , का प्रतिदाय करने का वचनबद्ध करता हूँ ।

हस्ताक्षर :

अधिभोगी

नाम :

पदनाम :

स्थान :

तारीख :

चीनी उपक्रम का नाम और पता

वफर स्टाक के लिए उस बैंक द्वारा सत्यापन जिसने उधार दिया है और जिसके पास चीनी कारखाने के अधिभोगी ने उपखंड (13) (क) के अधीन पृथक् खाता खोला है ।

* यह प्रमाणित किया जाता है कि मद 4 , 5(क), 5 (ख), और (घ) तथा मद 8 (i)(क) के सामने दी गई सूचना सही है ।

या

*प्रमाणित किया जाता है कि दावेदार चीनी उपक्रम ने तिमाई या उस अवधि के दौरान जिससे यह दावा संबंधित है, वफर स्टाक के रूप में उसके द्वारा पृथक् रखी गई चीनी की मात्रा पर सामान्य बैंक उधार से अधिक कोई अतिरिक्त बैंक उधार का उपयोग नहीं किया है जैसा कि मद 3 और 4 के सामने उसके द्वारा उपदर्शित किया गया है ।

या

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मद 4 और 8 (i) के सामने दी गई जानकारी सही है ।

या

*प्रमाणित किया जाता है कि क्योंकि गन्ने के मूल्यों का कोई भी देय इस दावे की अवधि के दौरान दावेदार चीनी उपक्रम के विरुद्ध बकाया नहीं था , इसलिए उपक्रम ने चीनी के वफर स्टाक पर.....को इस बैंक द्वारा उसको दिए गएरुपये के अतिरिक्त उधार की रकम उसमें जमा कराने के लिए इस बैंक के पास कोई खाता नहीं खोला था । तथापि, बाद में दावेदार चीनी उपक्रम ने इस बैंक के पास एक अलग खाता (सं०.....) खोला था और उसमें गन्ने के मूल्य के देय संदाय के लिए उपयोग किए जाने के लिएकोरुपए जमा कराए थे जो बाद में /भविष्य में **हो गए थे ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मद 4, 5 (क), (ख) और (घ) तथा मद 8 (i) (क) के सामने दी गई जानकारी सही है।

नाम पते और मोहर सहित
बैंक के प्रबंधक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

- * जो प्रमाणपत्र लागू नहीं होता हो, उसे काट दें
- ** जो लागू नहीं होता हो, उसे काट दें

और

ब्याज, भंडारकरण और बीमा के लिए उस सहायकी की बाबत जो बैंक के पास एक अलग खाते में जमा की गई है इस बैंक द्वारा सत्यापन।

(i) प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर मद 4, 5ख (क) और (घ) तथा मद 8(i)(क) के सामने दी गई जानकारी सही है

(ii) प्रमाणित किया जाता है कि दावेदार चीनी उपक्रम ने इस बैंक के पास(तारीख) कोएक अलग बैंक खाता संख्यांकखोला है और ब्याज, भंडारकरण, और बीमा के लिए सहायकी के रूप में उसके द्वारा प्राप्तरुपए की रकम उसमें(तारीख) को जमा कर दी है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त खाते में जमा की गईरुपए की उक्त रकम में से गन्ने के मूल्यों के बकाया सहित गन्ने के देय मूल्य के लिए दावेदार चीनी उपक्रम द्वारा संदत्त कर दी गई है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि राज्य सरकार के प्राधिकारी/अधिकारी के तारीख(मूल संलग्न करें) के प्रमाणपत्र के आधार पर दावेदार चीनी उपक्रम पर अलग बैंक खाता में सहायकी की रकम के उधार की तारीख को गन्ने के मूल्यों के बकाया सहित कोई गन्ने का देय मूल्य बकाया नहीं है और तदनुसार दावेदार चीनी उपक्रम को किसी अन्य प्रयोजन के लिएरुपए की रकम का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात किया गया है।

नाम पते और मोहर सहित
बैंक के प्रबंधक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

राज्य सरकार के प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र।

- * प्रमाणित किया जाता है कि मद 5 (ग) और (ङ) के सामने दी गई जानकारी सही है।

या

* प्रमाणित किया जाता है कि उस तारीख सेतक (वह तारीख जिसको इस दावे की अवधि /तिमाई समाप्त होती है) जब अतिरिक्त बैंक उधार मद 5 (क) के सामने उपदर्शित रूप में अभिप्राप्त किया गया था , प्रारंभ होने वाली अवधि के दौरान कोई भी गन्ने के मूल्य का देय चीनी उपक्रम के विरुद्ध बकाया नहीं था

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम और पता :

स्थान :

तारीख :

[जिला गन्ना अधिकारी या राज्य सरकार के किसी ऐसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा जो चीनी उपक्रम द्वारा गन्ने के मूल्य के संदाय के प्रवर्तन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं , हस्ताक्षर किए जाएंगे]

* जो प्रमाणपत्र लागू नहीं होता हो उसे काट दें ।

ब्याज, भंडारकरण और बीमा के लिए सहायकी की बाबत राज्य सरकार के प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र ।

(i) प्रमाणित किया जाता है कि मद 5 ख(ग) और (ङ) के सामने दी गई जानकारी सही है ।

(ii) प्रमाणित किया जाता है कि उस तारीख सेतक (वह तारीख जिसको इस दावे की अवधि/तिमाई समाप्त होती है) जब ब्याज , भंडारकरण और बीमा के लिए सहायकी मद 5ख (क) के सामने उपदर्शित रूप में दावेदार चीनी उपक्रम द्वारा अभिप्राप्त की गई थी ,रुपए गन्ने के मूल्यों के बकाया सहित देय गन्ने के मूल्य के लिए दावेदार चीनी उपक्रम के विरुद्ध बकाया थे /गन्ने के मूल्यों के बकाया सहित गन्ने का कोई देय बकाया नहीं था ।

हस्ताक्षर :

नाम :

स्थान :

तारीख :

[जिला गन्ना अधिकारी ~~या~~ राज्य सरकार के किसी ऐसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा जो चीनी उपक्रम द्वारा गन्ने के मूल्य के संदाय के प्रवर्तन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं , हस्ताक्षर किए जाएंगे]

पावती

.....रुपए
 रुपए की राशि प्राप्त की गई

अधिभोगी { हस्ताक्षर : (राजस्व स्टॉप पर)
 नाम :
 पदनाम :

स्थान :

तारीख :

चीनी उपक्रम का नाम और पता :

4. प्ररूप 5 के पश्चात् और “अनुसूची” के पूर्व निम्नलिखित प्ररूप 6 अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप 6

[नियम 19 (13क) (ख)]

प्रमाणित किया जाता है कि(बैंक), के (पृथक खाता संख्यांक.....में सहायकी की
 रकम जमा करने की तारीख)को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कि गन्ने के मूल्य के बकाया
 सहित गन्ने का कोई मूल्य देय(चीनी उपक्रम का नाम और पता) के विरुद्ध
 बकाया नहीं थे

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम और पता :

[गन्ना आयुक्त या राज्य सरकार के किसी ऐसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा
 जो चीनी उपक्रम द्वारा गन्ने के मूल्य के संदाय के प्रवर्तन और पर्यवेक्षण
 के लिए उत्तरदायी हैं , हस्ताक्षर किए जाएंगे]

[फा. सं. 1-7/2001-एसडीएफ]

आर. एन. दास, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सं० सा०का०नि० 752 (अ) तारीख 28.9.83, द्वारा प्रकाशित किए गए
 थे और तत्पश्चात् सा०का०नि० 817(अ) तारीख 20.12.84, सा०का०नि० 838(अ) तारीख 14.11.85,
 सा०का०नि० 551(अ) तारीख 6.5.88, सा०का०नि० 235(अ) तारीख 24.4.91, सा०का०नि० 441(अ) तारीख
 28.4.92, सा०का०नि० 435(अ) तारीख 6.5.94, सा०का०नि० 27 (अ) तारीख 12.1.96, सा०का०नि० 656(अ)
 तारीख 21.11.1997 और सा०का०नि० 91 (अ) तारीख 12.02.2001 द्वारा संशोधित किए गए

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Food and Public Distribution)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th December, 2001

G.S.R. 886(E).— In exercise of the powers conferred by section 9 of the Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sugar Development Fund Rules, 1983 namely : -

1. (1) These rules may be called the Sugar Development Fund (Second Amendment) Rules, 2001

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sugar Development Fund Rules, 1983 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 19, after sub-rule (13), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

“ (13 A) Maintenance of funds received by way of subsidy towards interest, storage and insurance and utilisation thereof;

(a) Every occupier of a sugar factory shall set apart the amount, if any received from the Central Government by way of subsidy towards interest, storage and insurance on the quantity of buffer stock of sugar and credit the amount so set apart to a separate account with his banker with whom he has a separate account under clause (a) of sub-rule (13), for the purpose provided in clause (b) of this sub-rule.

(b) The amount credited to the separate account shall not be used by the said occupier for any purpose other than for payment of price, payable for the sugarcane purchased by the sugar factory;

Provided that where the State Government Authority/officer furnishes a certificate in Form VI to the banker referred to in clause (a) above to the effect that the concerned sugar factory has no sugarcane price dues including arrears of price outstanding against it on the date of credit of the amount of subsidy towards interest, storage and insurance into the separate account, the bank may allow the said occupier to use the said amount for any other purpose under intimation to the Central Government.”

3. In the said rules for Form V, the following shall be substituted, namely :-

FORM - V
[Rule 19 (16)]

Form for claiming payment of subsidy towards, interest and storage and insurance charges for buffer stock of sugar for the period from _____ to _____ / quarter ending _____

(Quantity to be indicated in
quintals and amount in rupees)

1. Name and address of the sugar undertaking :

2. Reference number and date of communication(s) from Central Government/Chief Director communicating

a) total quantity of sugar to be maintained as buffer stock

b) Gradewise and sugar year-wise quantity of sugar to be segregated and stored as buffer stock.

3. Gradewise and sugar year-wise quantity of sugar actually segregated and stored as buffer stock.

Period	Quantity
From	To

4. Period-wise details of quantity of sugar segregated and stored as buffer stock

5. Additional credit (margin money) received from the Bank on buffer stock

a) Amount received with date of receipt

b) Amount out of (a) kept in separate Bank Account with number of the Account

c) Amount out of (b) actually utilised for payment of cane price

d) Balance [(b) minus (c)] at the close of last date of the period/quarter of the claim

e) Reasons for non-utilisation of the amount at (d)

5. A Particulars of the insurance policy under which the buffer stock is insured :-

- (1) Name and address of the Insurance Company
- (2) Number of Insurance Policy
- (3) Period of Insurance
- (4) Risks covered
- (5) Godown No(s) where the buffer stock is stored

5.B Subsidy towards interest, storage and insurance received from the Central Government on buffer stock

Period Quantity
 From To

- (a) Amount received with date of receipt
- (b) Amount of (a) kept in separate Bank Account with number of the Account
- (c) Amount out of (b) actually utilised for payment of cane price
- (d) Balance [(b) minus (c)] at the close of quarter of claim/last date of claim
- (e) Reasons for non-utilisation of amount in (d)

6. Rate specified under sub-rule (15) of rule 19 towards :

- (a) Interest (percent per annum)
- (b) Storage and insurance charges (percent per annum)

7. Value of sugar provided under sub-rule (15) of rule 19

Month	Tariff value in rupees per quintal	Sale realisation	
		(a) Quantity disposed of in quintals	(b) Amount of sale realisation in rupees
(i)			
(ii)			
(iii)			
Total			

Average tariff value/weighed average realisation
Rupees per quintal.

8. (i) Calculation of subsidy on account of interest charges on the buffer stock of sugar :

(a)	Amount of interest actually paid or payable to the bank for the period from _____ to _____	Period From To	Principal amount of advance	Rate of interest	Amount of interest Paid/Payable
-----	---	-------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------------------------

(b) amount calculated under sub-rule (15) of rule 19

(ii) Amount on account of storage and insurance charges, calculated under sub-rule (15) of rule 19.

9. Amount of subsidy claimed :

(i) Interest charges as per item 8 (i) (a) or 8 (i) (b), whichever is less.

(ii) Storage and insurance charges as per item 8 (ii)

(iii) Total of (i) and (ii) rounded off to the nearest rupee, in figures and words.

10. Name of the place nearest to the place of the factory, where the branch of the State Bank of India dealing with the Demand Drafts issued by the Reserve Bank of India is situated.

Signature :

The occupier

Name :

Designation :

Place :

Date :

Name and address of the Sugar Undertaking

DECLARATION

- (1) I hereby solemnly affirm and declare that the information furnished above is correct and no information relevant for the purpose of this application has been concealed.
- (2) I hereby undertake to refund to the Central Government such amount of subsidy received by me, as may be required, if any information furnished above is found to be wrong at any time.
- (3) I hereby declare that all the requirements of the rule 19 have been complied with and that if subsequently it is found that any provision of that rule has not been complied with, I undertake to refund to the Central Government such amount of subsidy received by me, as may be required by the Central Government.

Signature :

The occupier

Name :

Designation :

Place :

Date :

Name and address of the Sugar Undertaking

Verification by the Bank which provided credit against buffer stock and with which the occupier of the sugar factory has opened a separate account under sub-clause (13) (a).

* Certified that the information furnished against items 4, 5 (a), 5 (b) and (d) and 8(i) (a) above is correct.

OR

- Certified that the claimant sugar undertaking did not avail of during the quarter or the period to which this claim relates any additional bank credit, over and above the normal bank credit, on the quantity of sugar segregated by it as the buffer stock, as indicated by it against items 3 and 4.

OR

Also certified that the information furnished against items 4 and 8(i) (a) is correct.

OR

* Certified that since no sugarcane prices dues were outstanding against the claimant sugar undertaking during the period of this claim, the undertaking did not open a separate account with this Bank for depositing therein the amount of the additional credit of Rs..... given to it by this Bank on on the buffer stock of sugar. However, subsequently the claimant sugar undertaking opened a separate account (No.) with this bank and deposited therein Rs. on for being utilised for payment of cane price dues which arose subsequently/may ** arise in future.

Also certified that the information furnished against items 4, 5(a), (b) and (d) and 8 (i) (a) is correct.

Signature of the Manager of the Bank with his
name, address and seal.

Place :

Date :

* **Strike out whichever certificate is not applicable**

** **Strike out whichever is not applicable**

AND

Verification by the Bank in respect of the subsidy towards interest storage and insurance that has been credited into a separate account with the Bank.

(i) Certified that the information furnished against items 4, 5B(a), (b) and (d) and 8(i) (a) above is correct.

(ii) Certified that the claimant sugar undertaking has opened a separate bank account number on (date) with this bank and has deposited an amount of Rs. therein on (date) received by it as subsidy towards interest, storage and insurance.

Also certified that out of the said amount of Rs. deposited into the said account Rs. have been paid by the claimant sugar undertaking towards cane price dues including arrears of cane prices.

Also certified that on the basis of the certificate of the State Government Authority/officer dated (enclosed in original), the claimant sugar undertaking did not have any cane price dues including arrears of cane prices on the date of crediting the subsidy amount into the separate bank account and accordingly the claimant sugar undertaking has been allowed to use an amount of Rs. for any other purpose.

Signature of the Manager of the Bank
with his name, address and seal.

Place :

Date :

Certificate by the State Government Authority/officer.

* Certified that the information furnished against item 5(c) and (e) is correct.

OR

* Certified that during the period commencing from the date of the additional Bank credit was received as indicated against item 5(a) to (the date on which period/quarter of this claim ended) no cane price dues were outstanding against the sugar undertaking.

Signature :

Place :

Name :

Designation and Address

[To be signed by the District Cane Officer or a Gazetted Officer of the State Government who is responsible for enforcement and supervision of payment of price of sugarcane by the sugar undertaking]

* Strike out whichever certificate is not applicable.

Certificate by the State Government Authority/Officer in respect of the subsidy towards interest, storage and insurance.

- (i) Certified that the information furnished against items 5 B (c) and (e) is correct.
- (ii) Certified that during the period from the date the subsidy towards interest, storage and insurance was received by the claimant sugar undertaking as indicated against items 5B (a) to (the date on which period/quarter of this claim ended) Rs. were outstanding against claimant sugar undertaking towards cane price dues including arrears of cane prices/no cane price dues including arrears of cane prices were outstanding.

Place :

Signature :

Date :

Name :

[To be signed by the District Cane Officer/Gazetted Officer of the State Government who is responsible for supervision of payment of price of sugarcane by the sugar undertaking]

RECEIPT

Received the sum of Rs.

Rupees

The Occupier

Signature (across a Revenue Stamp)

Name :

Designation

Place :

Date :

Name and address of the sugar undertaking :

4. After Form V and before "THE SCHEDULE" the following Form VI shall be inserted; namely :

FORM VI

[Rule 19 (13A) (b)]

Certified that during the period ending (date of crediting the subsidy amount into the separate account No.) of (bank), no cane price dues including arrears of cane price were outstanding against (name and address of the sugar undertaking)

Signature :

Name :

Designation and address :

[To be signed by the Cane Commissioner or a Gazetted Officer of the State Government who is responsible for enforcement and supervision of payment of price of sugarcane by the sugar undertaking]

[F. No. 1-7/2001-SDF]

R. N. DAS, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide No. GSR 752 (E) dated 28.9.83 and subsequently amended vide GSR 817 (E) dated 20.12.84, GSR 838 (E) dated 14.11.85, GSR 551 (E) dated 6.5.88, GSR 235 (E) dated 24.4.91, GSR 441 (E) dated 28.4.92, GSR 435 (E) dated 6.5.94, GSR 27 (E) dated 12.1.96, GSR 656 (E) dated 21.11.1997 and GSR 91 (E) dated 12.02.2001.

